

# निवेश से जुड़ी सामान्य धोखाधड़ी (स्कैम)



## चार सामान्य धोखाधड़ी (स्कैम)



### बंधुत्व धोखाधड़ी

इसके तहत, धोखाधड़ी करने वाले लोग किसी समूह या संगठन में शामिल होते हैं, तथा आपका विश्वास जीतने के लिए आपके समूह की पहचान का प्रयोग करते हैं। स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात, वे सदस्यों को उनकी योजनाओं में निवेश करने के लिए राबनी करते हैं।



### “छूट” प्रितभूतियां

इसके तहत, धोखाधड़ी करने वाले लोग कहते हैं कि यह निवेश केवल बहुत ही धनी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, और केवल आपके लिए ही छूट दी जा रही है। यदि किसी हॉट टिप या ऐसे व्यवसाय के बारे में अवांछित फोन आए, और बताया जाए कि शीघ्र ही यह सूचना “सार्वजनिक हो जाएगी”, तो उससे सावधान रहें। छूट वाली प्रितभूतियां अपने आप में धोखाधड़ी नहीं हैं। छूट वाली प्रितभूतियों को एक विवरणिका के बिना बेचा जा सकता है, परन्तु वे केवल अधिकृत निवेशकों के लिए ही उपलब्ध होती हैं, अथवा कुछ अन्य विशेष शर्तें होती हैं।



### फॉरेक्स

धोखाधड़ी करने वाले लोग इसमें विदेशी मुद्रा बाजारों में कम जोखिम और अधिक प्रतिफल का वादा करते हैं। गैर-विनियमित कम्पनियां - नियमों के बाहर जाकर अपनी सेवाओं की मार्केटिंग कर सकती हैं। हो सकता है कि आपके पैसे को उस तरह से निवेश ना किया जाए, जैसा आपको बताया गया था। फॉरेक्स बाजार में बड़े अन्तरराष्ट्रीय बैंकों का प्रभुत्व होता है, जिनके पास नवीनतम प्रौद्योगिकी, अत्यधिक प्रशिक्षित कर्मचारी, तथा बड़े ट्रेडिंग खाते होते हैं।



### पोंजी/पिरामिड

धोखाधड़ी करने वाले लोग किसी तथाकथित शानदार निवेश में जल्दी से धनवान बनने का लालच देते हैं। इसमें पुराने निवेशकों को नए निवेशकों के धन में से भुगतान किया जाता है। बाद में धोखेबाज व्यक्ति पूरा पैसा लेकर गायब हो जाता है।

**क्या आपसे ऐसे किसी धोखेबाज व्यक्ति ने सम्पर्क किया है, अथवा आप ऐसे किसी धोखेबाजी (स्कैम) के शिकार बने हैं।**

ऑंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन से **1-877-785-1555** पर या अपनी स्थानीय पुलिस से सम्पर्क करें।

और अधिक जानकारी के लिए यहाँ देखें **www.GetSmarterAboutMoney.ca**

## Ontario Securities Commission

20 Queen St. W., 22<sup>nd</sup> Floor, Toronto, Ontario M5H 3S8

Tel: 1-877-785-1555 Email: [inquiries@osc.gov.on.ca](mailto:inquiries@osc.gov.on.ca)

 [GetSmarterAboutMoney](https://www.facebook.com/GetSmarterAboutMoney)

 [@smarter\\_money](https://twitter.com/smarter_money)

[GetSmarterAboutMoney.ca](https://www.getsmarteraboutmoney.ca)



ONTARIO  
SECURITIES  
COMMISSION

